



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 14-अगस्त 20, 2010 (श्रावण 23, 1932)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 14—AUGUST 20, 2010 (SRAVANA 23, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2010

सं. ओ.दो.3746/07-कार्मिक (चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा
उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. शिवाजी सिंह, चिकित्सा
अधिकारी (इरला-7237), 180 बटालियन, के.रि.पु.बल, को संबंधित
बटालियन की नफरी से दिनांक 01.07.2010 (पूर्वाह्न) से निकाला गया है।
तदनुसार, इस बल की नफरी से उनका नाम दिनांक 01.07.2010 (पूर्वाह्न)
से हटाया जाता है।

टी. चन्द्रशेखरन

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 28 जुलाई 2010

सं. डब्ल्यू.एम.-1/क्यू-55(जी)/खण्ड-II/1541-44--प्रधान
महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत

निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I को इस आदेश के वरिष्ठ
प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतन बैंड-3, रुपये 15,600--39,100/-
एवं ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में अस्थायी स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ
प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में 02.08.2010 या प्रभार ग्रहण करने के
दिनांक के प्रभाव से, जो बाद में लागू हो, वर्तमान डिविज़न में अगले आदेश
तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के
लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक नाम

1. श्री नानी गोपाल चक्रवर्ती

2. श्री विष्णु कुमार

2. उपरोक्त अधिकारियों को प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु
वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक
माह के अन्दर एफ. आर. 22(1) (क)(1) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत
करें।

हस्ता./- अपठनीय

वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा)

दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. डब्ल्यू.एम.-I/क्यू-73(जी)/खण्ड-IV/1554-57--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतन बैंड-2, रुपये 9,300--34,800/- एवं ग्रेड वेतन रुपये 4,800/- में अस्थायी स्थानापन्न क्षमता में विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में 02.08.2010 या प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से जो बाद में लागू हो वर्तमान डिविज़न में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक नाम

1. श्री प्रवीर कुमार मुखोपाध्याय

2. श्री अमल कुमार नन्दी

2. उपरोक्त अधिकारियों को प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अन्दर एफ. आर. 22(1) (क)(1) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

हस्ता./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा)

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. 5/1/2010-सी.पी.आई.--जुलाई, 2010 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 2 अंक बढ़ कर 174 (एक सौ चौहत्तर) अंकों के स्तर पर रहा।

एस. एस. नेगी
निदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. पीडी/8(7)/2008/भर्ती-IV/6708--राष्ट्रपति, श्री हितेन्द्र सिंह चौहान को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-सी के पद पर रु. 15,600--39,100/- के पे बैंड एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- (संशोधन पूर्व रु. 8,000-275-13,500/-) के वेतनमान में, 31 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. गोवर्धन राव
अध्यक्ष, कार्मिक प्रभाग

परमाणु ऊर्जा विभाग
(परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र)

कोलकाता-700064, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. वोईसीसी/पदोन्नति/2010/2219--निदेशक, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, प्रसन्नता पूर्वक नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा

विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित अधिकारी को परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता में रु. 9,300--34,800/- (वेतन बैंड-2) + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के वेतनमान में लेखा अधिकारी के पद पर 28 जून 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :--

नाम	पदनाम	वेतनमान
श्री एस. एस. जानी	सहायक लेखा अधिकारी	रु. 9,300--34,800/- (पे बैंड-2) + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-

के. गोपालकृष्णन
प्रशासनिक अधिकारी-III

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. आरआरकेट/2009-प्रशा./आर-805(जे)/759--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई ग्रेड, पे बैंड और तिथि से राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड (पे बैंड + ग्रेड वेतन)	पदोन्नत ग्रेड (पे बैंड + ग्रेड वेतन)	दिनांक से (पूर्वह्न)
1	2	3	4	5
1.	डॉ. महेश्वर नायक	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-)	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-)	01.07.2009
2.	श्री चंद्रकांत	-वही-	-वही-	-वही-
3.	श्री मुकेश कुमार	-वही-	-वही-	-वही-
4.	श्री प्रवीण मोहनिया	-वही-	-वही-	-वही-
5.	श्री रियासत हुसैन	-वही-	-वही-	-वही-
6.	श्री रमाकांत बिस्वाल	-वही-	-वही-	-वही-
7.	श्री अनुराग बन्सल	-वही-	-वही-	-वही-
8.	श्री आर. के. सोनी	-वही-	-वही-	-वही-
9.	श्री रेहन भांडारे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-)	-वही-
10.	श्री अरुण कुमार	-वही-	-वही-	-वही-
11.	श्री धृवदीप नन्त	-वही-	-वही-	-वही-
12.	श्री शैलेश कुमार खमारी	-वही-	-वही-	-वही-
13.	श्री कृष्णेश चंद्र पंत	-वही-	-वही-	-वही-
14.	कु. नेहा सिंह	-वही-	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5
15. श्री के. सेकर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-)	01.07.2009	पूर्वस्थ
16. श्रीमती पारुल अरोरा	-वही-	-वही-	-वही-	
17. श्री प्रदीप कुमार	-वही-	-वही-	-वही-	
18. श्री अखिल पटेल	-वही-	-वही-	-वही-	
19. श्री प्रशान्त कुमार साहनी	-वही-	-वही-	-वही-	
20. श्री अंकुर अग्रवाल	-वही-	-वही-	-वही-	
21. श्री मनजीत अहलावत	-वही-	-वही-	-वही-	
22. श्री रहलु गौड़	-वही-	-वही-	-वही-	
23. कु. रिकी उपध्याय	-वही-	-वही-	-वही-	
24. कु. प्राची चिटणीस	-वही-	-वही-	-वही-	
25. श्री महेश आचार्य	-वही-	-वही-	-वही-	
26. श्री अक्वीश ओझा	-वही-	-वही-	-वही-	
27. श्री दीपक कुमार वत्स	वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी (पीबी-3, रु. 9,300-- 34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 34,800/-)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3 रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	01.07.2009	

आर. पी. आचार्य
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. पखनि-4/4/2009-भर्ती/1299--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से (उसमें दर्शाए गए वेतन बैंड के अनुसार) आगामी आदेशों तक पदोन्नति द्वारा इसी निदेशालय में प्रत्येक के सामने वर्णित ग्रेड में, स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं. अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत पद/ वेतन बैंड	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4
(सर्वश्री)			
1. डॉ. एम. एन. बाबु	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई वेतन बैंड-3, 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-	01.07.2009
2. बी. सी. सरकार	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई वेतन बैंड-3, 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-	01.07.2009

1	2	3	4	5
(सर्वश्री)				
3. के. वेंकटेश्वर राव	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई वेतन बैंड-3, 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-	01.07.2009	
4. एम. जयचंद्रन	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	वैज्ञानिक अधिकारी-डी वेतन बैंड-3, 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-	01.07.2009	
5. एस. अंजन प्रसाद	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	वैज्ञानिक अधिकारी-डी वेतन बैंड-3, 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-	01.07.2009	
6. हबीब अली खान	वैज्ञानिक अधिकारी-एसबी	वैज्ञानिक अधिकारी-सी वेतन बैंड-3, 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-	01.07.2009	

वी. विजय रामि रेड्डी
प्रशासनिक अधिकारी-III

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. ए-12018/1/2009-स्था.-I--राष्ट्रपति, महानिदेशक, नागर विमानन कार्यालय में वायुयान इंजीनियरी निदेशालय के निम्नलिखित सहायक निदेशकों को 15,600--39,100/- रु. तथा ग्रेड वेतन 7,600/- रु. के वेतनमान में वायुयान इंजीनियरी निदेशालय में उनकी पदोन्नति होने पर उनकी तदर्थ नियुक्ति को 29.06.2010 के बाद छह माह की अवधि या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक के लिए, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं :--

1. श्री आनंद प्रकाश (केवल 30.06.2010 तक के लिए, क्योंकि वे दिनांक 30.06.2010 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए)

2. श्री ए. के. तिवारी

3. श्रीमती कमल महाजन

4. श्री हिल्लोल बिस्वास

2. तदर्थ नियुक्ति उन्हें नियमित पदोन्नति या वरिष्ठता आदि के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार संबंधित अधिकारियों को बिना कोई कारण बताए या बिना कोई नोटिस दिए उनकी तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

विजय सिंह
उप निदेशक प्रशासन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय
कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में
चण्डीगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. आरओसी/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	9851	मैसर्स एम. एम. जी. डिपोजिट्स एण्ड एडवांसेस प्राईवेट लिमिटेड
2.	15476	मैसर्स विनय सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	31769	मैसर्स कोनसोल एजुकेशन एण्ड इमीग्रेशन कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	27728	मैसर्स रोबिन इन्श्योरेंस कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	5551	मैसर्स पंजाब कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	8151	मैसर्स सिंगला मशीनरी स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	30947	मैसर्स एम. एस. कैरियर इमीग्रेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
8.	17963	मैसर्स श्री गंगा नगर फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	12067	मैसर्स हरगुर फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	18708	मैसर्स फास स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	12235	मैसर्स ज्योति डिपोजिट्स एण्ड एडवांसेस लिमिटेड
12.	25324	मैसर्स वैलटैक इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	30908	मैसर्स लैफ्टब्रेन एजुकेशनल टेसटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
14.	11326	मैसर्स रेनुका वूलन्स प्राईवेट लिमिटेड

राज सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में
चण्डीगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. टी.एस./560(3)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों

का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्ट्रार से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	25812	मैसर्स नव मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
2.	18065	मैसर्स कलिमा इम्पैक्स लिमिटेड
3.	08522	मैसर्स गोईन्दवाल गियर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	11878	मैसर्स स्कैन्डोज फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	12485	मैसर्स जे. एस. स्टॉक एण्ड शेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
6.	13716	मैसर्स जय गनेश टैक्सटायल एण्ड वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	04720	मैसर्स अमीगो केमिकल्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
8.	11134	मैसर्स आत्म एग्रो मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	14960	मैसर्स जोत लिजिंग एण्ड फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	27275	मैसर्स ग्रेटर मोहाली डबलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
11.	29982	मैसर्स एच. पी. सिंह एण्ड अदर्स कोलोनाईजर एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	05148	मैसर्स चन्वल फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	30129	मैसर्स इनटायम इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	05380	मैसर्स मोहन पोल्ट्री ओर्गेनाईजर प्राईवेट लिमिटेड
15.	24037	मैसर्स वैब पॉवर डॉट प्राईवेट लिमिटेड
16.	24669	मैसर्स बागरी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	07736	मैसर्स न्यु ट्रेन्ड इम्प्लाइमेंट प्रोमोटर्स लिमिटेड
18.	30929	मैसर्स जी. टू एनर्जी सेवर एण्ड इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	26415	मैसर्स अखिलेश्वर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	24048	मैसर्स त्रिदेव पोली फैब्रिक्स लिमिटेड
21.	07194	मैसर्स प्रशाद मेडीसन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
22.	13202	मैसर्स औलम्पिक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

राज सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 560(5)एमसीए/जी.सी. शिलांग--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	5195	मैसर्स अरुणाचल फैब्रिकेशन एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
2.	7384	मैसर्स इस्प्रिंग भेली फूड प्राईवेट लिमिटेड
3.	5604	मैसर्स दामायान्ती एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
4.	7550	मैसर्स अवनंती ग्रेड बुलडॉर्स केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	5670	मैसर्स एस. एन. टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	3547	मैसर्स पोलास फूड एण्ड बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
शिलांग

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोलडनआई फायनांशियल सर्विसेस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
कोच्चि-682021, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. 11877--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोलडनआई फायनांशियल सर्विसेस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पडीसारेकरा कमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
कोच्चि-682021, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. 11881--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पडीसारेकरा कमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वेब एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
कोच्चि-682021, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. 11884--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेब

एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बीपीएल पॉवर प्रोजेक्ट्स केरला प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
कोच्चि-682021, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. 11887--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बीपीएल पॉवर प्रोजेक्ट्स केरला प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कोसे ट्रान्सपोर्ट्स एण्ड ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
कोच्चि-682021, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. 11890--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोसे ट्रान्सपोर्ट्स एण्ड ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नोवल टिम्बर्स ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
कोच्चि-682021, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. 11893--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नोवल टिम्बर्स ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सी-सोन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
कोच्चि-682021, दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. 11896--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सी-सोन

बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 22 जुलाई 2010

सं. एस.एम. 560(3)एस. एम. 22/आरओसी/ईकेएम/11950/2010--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	06805	मैसर्स कोचिन चेतक रोड लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	07139	मैसर्स कोचिन बिल्डर्स एण्ड एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	07202	मैसर्स काशीकल क्रेडिट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	07211	मैसर्स धनन्जेया हायर पर्चेजिंग एण्ड लिजिंग फायनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5.	07251	मैसर्स डोन एस्टेट्स एण्ड एडिफिसज प्राईवेट लिमिटेड
6.	07366	मैसर्स आनामुडी मॉन्टन टोप रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	07598	मैसर्स सोफिया स्टील रि-रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	07814	मैसर्स सेन्स 6 फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
9.	07984	मैसर्स ए एण्ड एस कम्प्यूनिक्शन्स एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	07993	मैसर्स हारमेट टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	08060	मैसर्स आधुनिक क्रेडिट एण्ड सेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
12.	08063	मैसर्स अत्तानी कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	08065	मैसर्स श्रीनिवास कोनडिमेट्ज प्राईवेट लिमिटेड
14.	08128	मैसर्स टेक्नो मैराईन इक्विपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	08228	मैसर्स देवी कृष्णा रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
16.	08268	मैसर्स ओयसिस एक्वा प्रोजेक्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
17.	08273	मैसर्स कैपिटल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	08316	मैसर्स मन्ना एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	08395	मैसर्स लैन्ड मास्टर डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	08463	मैसर्स होरिसोन फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	08505	मैसर्स हमाली प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	08576	मैसर्स बरसार फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	08583	मैसर्स अक्षया प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
24.	08645	मैसर्स रुबिकोन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	08700	मैसर्स हाई-फाई एप्लायन्सेस प्राईवेट लिमिटेड
26.	08708	मैसर्स इमेजिस डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
27.	08775	मैसर्स ट्रांसकोम प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	08877	मैसर्स प्राचिस सेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
29.	08898	मैसर्स राईस कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
30.	08920	मैसर्स मरकामपरंबिल क्रेडिट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	08972	मैसर्स सोल इण्डिया फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	08982	मैसर्स एच वाई एस फाउन्डेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	09008	मैसर्स बियूर कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
34.	09036	मैसर्स फ्रन्ट लाईन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
35.	09041	मैसर्स जेमिनी कोन्ट्रैक्ट्स एण्ड ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	09047	मैसर्स इन्सटेन्ट एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	09098	मैसर्स स्कॉन्स सेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
38.	09196	मैसर्स ग्लोर प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	09236	मैसर्स स्टालियन प्राईवेट लिमिटेड
40.	09268	मैसर्स लेचिव कम्पोजिटिज प्राईवेट लिमिटेड
41.	09276	मैसर्स सुनीमनी प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
42.	09309	मैसर्स तोट्टुंगल चिट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	09314	मैसर्स ग्रिप इण्डिया प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
44.	09324	मैसर्स केरला कार्ड प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
45.	09329	मैसर्स जेएनवी स्टॉक्स एण्ड शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	09339	मैसर्स स्वराष्ट्रा फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	09407	मैसर्स तमिलनाडु सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	09483	मैसर्स अल फलेह कारगो लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	09537	मैसर्स सनातना हर्बल्स एण्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	09686	मैसर्स फलीन्टज़ रिट्रिट प्राईवेट लिमिटेड
51.	09688	मैसर्स बालयार चिट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	09755	मैसर्स केरला ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	09768	मैसर्स वीजेएम प्लान्टेशन्स एण्ड रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	09798	मैसर्स कोट्यपुरम लिजिंग एण्ड फायनांशियल प्राईवेट लिमिटेड
55.	09799	मैसर्स विष्णु फायनांशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
56.	09831	मैसर्स ग्रे गोल्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	09840	मैसर्स कोचिन डेवलेपमेन्ट सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड
58.	09895	मैसर्स नागममा प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	09969	मैसर्स सिको प्राईवेट लिमिटेड
60.	10067	मैसर्स एडयार होल्डिंग्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	10117	मैसर्स एम के पी लाटक्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	10133	मैसर्स सूर्याकिरण ट्रेड्स एण्ड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
63.	10169	मैसर्स टैडल मार्केटिंग एण्ड सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	10216	मैसर्स पावर्ती कन्नन क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	10236	मैसर्स जी एस ग्रुप ऑफ कम्पनीज़ प्राईवेट लिमिटेड
66.	10301	मैसर्स वरदानम् चिट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	10338	मैसर्स अनगा प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	10352	मैसर्स पूजिता चिट्स एण्ड हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
69.	10353	मैसर्स बितल्ल प्राईवेट लिमिटेड
70.	10354	मैसर्स दिरज़ कुरिज़ एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	10488	मैसर्स मल्लया इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड कुरिज़ प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
72.	10561	मैसर्स धना स्वरूप एण्ड सोशियल वेलफेयर सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
73.	10641	मैसर्स तैसिस लिजिंग एण्ड हायर परचेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
74.	10732	मैसर्स एमपिण्ल इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	10890	मैसर्स मनोला चिट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	11035	मैसर्स सौहरुतम कुरिज़ एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	11041	मैसर्स टटरा लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	11059	मैसर्स ए जी पी फायनांशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	11075	मैसर्स ट्रान्समेड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	11189	मैसर्स श्री भगवती एन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड
81.	11231	मैसर्स माग्ना ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
82.	11248	मैसर्स डास्को होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	11264	मैसर्स अमरापुरी चिट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	11356	मैसर्स विश्वास कुरिज़ एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	11514	मैसर्स लोयल फ्रेट शिपिंग एजेन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड
86.	11646	मैसर्स ट्रेन्ड्स प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	11838	मैसर्स रिच ब्लेण्ड टी प्राईवेट लिमिटेड
88.	12495	मैसर्स सत्या मैराइन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	12564	मैसर्स लाईफ कार्ड्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
90.	12567	मैसर्स होटल हार्बरव्यू प्राईवेट लिमिटेड
91.	12665	मैसर्स कोन्नन ओरगेनिक फार्मस एण्ड प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	12744	मैसर्स अक्षया सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
93.	12752	मैसर्स प्रोचिमा पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	12791	मैसर्स एपिएस एडिबिलिज़ प्राईवेट लिमिटेड
95.	12847	मैसर्स पाम्बाडी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	12859	मैसर्स वलफोर इन्फो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	12992	मैसर्स गुडलक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
98.	13068	मैसर्स गोल्डन स्पैरो फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
99.	13256	मैसर्स बेस्ट मिलेनियम ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	13548	मैसर्स विग्नेश्वर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	13729	मैसर्स डेल एण्ड हिल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
102.	13747	मैसर्स इन्टरफिनिश इन्टरियर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	13985	मैसर्स कन्कट केरला डोट कॉम प्राईवेट लिमिटेड
104.	14144	मैसर्स एडियल फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
105.	14228	मैसर्स हैनस प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड
106.	14253	मैसर्स प्रनवम होलिडेज़ प्राईवेट लिमिटेड
107.	14282	मैसर्स मलबार टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	14310	मैसर्स इन्नोवेट फोरच्यून रेमेडिज़ प्राईवेट लिमिटेड
109.	14342	मैसर्स ट्रावनकूर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	14370	मैसर्स इन्डेकर आर्किटेक्ट्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड

बी. ई. जोसकुट्टी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. आर.ओ.सी/560(3)/2832-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विधटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-007645	मैसर्स जय जगन्नाथ एस्टेट्स एण्ड प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-007651	मैसर्स यू एण्ड यू सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-007654	मैसर्स न्यू रि-रेजिडेन्सी एस्टेट्स एण्ड प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-007658	मैसर्स श्रीखेत्रा क्रियेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-007659	मैसर्स टीचर प्लेसमेंट एण्ड कन्सल्टिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-007662	मैसर्स श्री गोपीनाथ देव बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
7.	15-007661	मैसर्स मल्टी टायर बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-007663	मैसर्स सिग्नेसिस टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-007669	मैसर्स दृष्टि इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-007670	मैसर्स स्काईलिमिट फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-007671	मैसर्स लाईफकेयर बायोटेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-007672	मैसर्स सारो ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-007673	मैसर्स मैक्सगेन इन्फोवे प्राईवेट लिमिटेड
14.	15-007686	मैसर्स कैलाशपति कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
15.	15-007687	मैसर्स एनियोसीड ट्रेडिंग डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
16.	15-007697	मैसर्स नूतन ईस्टकॉन प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-007699	मैसर्स परफैक्स बुडकॉन प्राईवेट लिमिटेड
18.	15-006981	मैसर्स जरका एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-000489	मैसर्स द भुवनेश्वर ब्याबर्सई लिमिटेड
20.	15-005080	मैसर्स शाखत मर्कन्याईल प्राईवेट लिमिटेड
21.	15-006046	मैसर्स प्रोसीलियन्ट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	15-005897	मैसर्स नीलेश एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-006985	मैसर्स एसडीए डाय सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	15-006986	मैसर्स सुधा कम्बाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	15-006988	मैसर्स बासपानी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	15-006989	मैसर्स श्रीलक्ष्मी बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	15-007030	मैसर्स किंगफिशर मरीन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
28.	15-001821	मैसर्स गोदावरी प्लाय प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	15-002728	मैसर्स क्राफ्ट्स डिजीटल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	15-002804	मैसर्स युनाइटेड शिपिंग एजेन्सी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
31.	15-002990	मैसर्स आर बी बिस्कुट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	15-004593	मैसर्स उरी-प्राइड सिक्कुरियो सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
33.	15-005144	मैसर्स अल्फा इंजीनियर एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	15-005744	मैसर्स आर डी डेयरीस प्राईवेट लिमिटेड
35.	15-006993	मैसर्स इन्टरसिटी कम्प्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
36.	15-007701	मैसर्स ऑटोनेशन वाइड प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
37.	15-007704	मैसर्स राधारमणा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
38.	15-007709	मैसर्स स्वामी निगमानन्द ठाकुर सिक्युरिटी एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
39.	15-007711	मैसर्स कुल्लिया हर्ब्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	15-007717	मैसर्स मॉ बारूनई रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड
41.	15-007719	मैसर्स लक्ष्मी मैटालिक्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	15-007721	मैसर्स सृजनी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
43.	15-007722	मैसर्स शौभाग्य आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
44.	15-007726	मैसर्स गजानन रेजिडेन्सी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	15-007730	मैसर्स स्वास्तिक रीजनल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
46.	15-007737	मैसर्स वैभव मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
47.	15-007741	मैसर्स कोचिलाई रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड
48.	15-007743	मैसर्स बिजय सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	15-007745	मैसर्स सलाडी एस्टेट्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	15-007746	मैसर्स विजिबल सक्सेस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
51.	15-007747	मैसर्स प्रजाबन्धु शीतल भंडार प्राईवेट लिमिटेड
52.	15-007750	मैसर्स वैष्णवी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	15-007754	मैसर्स सिम्बायोटिक लोजिस्टिक्स एण्ड कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
54.	15-003756	मैसर्स फॉर्चून फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड

बी. मोहन्ति
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 28 जुलाई 2010

सं. आर.ओ.सी./560(3)/2860-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	15-001228	मैसर्स उड़ीसा कम्पोजाईट बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-002914	मैसर्स पण्डा मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड

बी. मोहन्ति
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वीएम टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 21 जुलाई 2010

सं. 29559/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वीएम टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आपिल गारगो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. 73766/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आपिल गारगो प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जेड एजुकेशनल कन्सल्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. 67230/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेड एजुकेशनल कन्सल्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मोडर्न किच्चेन एयिट्स लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. 9517/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोडर्न किच्चेन एयिट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपंज

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपंज

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपंज

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपंज

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपंज

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपंज

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपंज

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स दक्षिण वाटर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 52110/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दक्षिण वाटर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वो. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कोवन्टा इण्डिया ऑपरेटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेनै-600006. दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 45894/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोवन्दा इण्डिया ऑपरेटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एस. एम. फैशनस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 50878/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. एम. फौजान्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टीजेटी एजेन्सी एसीस्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 59826/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टीजेटी एजेन्सी एसीस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एडु कन्सल्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 68957/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एडु कन्सल्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एडोरनिस फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 59158/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एडोरनिस फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फरीडा मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 55310/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फरीडा मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हेमा बेनिफिट फण्ड लिमिटेड के विषय में
चेन्नै-600006, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00025--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हेमा बेनिफिट फण्ड लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सी. रूपाचन्द्र
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 9th November 2009

No. F.20/2009-SCA(I).—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Dr. R. K. Shrivastava, Chief Librarian to the ex-cadre post of Director (Library), in the Registry of Supreme Court of India with effect from the afternoon of November 3, 2009.

V. K. YADAV
Addl. Registrar

New Delhi, the 16th July 2010

No. F.20/2010-SCA(I).—Mrs. Matinder Kaur, Officiating Assistant Registrar has retired voluntarily from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the forenoon of July 16, 2010.

ASHOK KUMAR
Registrar (Admn. I)

The 24th July 2010

No. F.20/2010-SCA(I).—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Col. K. B. Marwaha (retired) to the ex-cadre post of Additional Registrar (Security) in the Registry of the Supreme Court of India with effect from the forenoon of 6th July, 2010.

ASHOK KUMAR
Registrar (Admn. I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 28th July 2010

No. O.II.3746/07-Pers (Mos).—On acceptance of his resignation from service by the competent authority, Dr. Shivaji Singh, MO (IRLA-7237), 180 Bn, CRPF has been struck off from the strength of the said unit wef. 01/7/2010 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force from 01.7.2010 (FN).

T. CHANDRASEKHARAN
DIGP (Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 28th July 2010

No. WM-I/Q-55(G)/Vol. II/1541-44.—Under the orders of the Pr. Accountant General (A&E), West Bengal the following Divisional Accounts Officer Gr-I are hereby promoted as Sr. Divisional Accounts Officer in the Pay

Band-3 : Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs. 5,400/- in the temporary and officiating capacity with effect from 2.8.2010 or the date of assumption of charges whichever in later as Sr. D.A.O. in the present Divisions till further order(s). They will be on probation for a period of 2 (two) years from the date of promotion :—

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
1.	Shri Nanigopal Chakraborti
2.	Shri Bishnu Kumar

The above named Officers may submit their options under F.R. 22(I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Sr. Divisional Accounts Officer for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant Genl. (A/cs. & VLC)

The 29th July 2010

No. WM-I/Q-73(G)/Vol. IV/1554-57.—Under the orders of the Pr. Accountant General (A&E), West Bengal the following Divisional Accounts Officer Gr-II are hereby promoted as Divisional Accounts Officer Gr. I in the Pay Band-2 : Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay Rs. 4,800/- in the temporary and officiating capacity with effect from 2.8.2010 or the date of assumption of charges whichever is later as D.A.O. Gr.-I in the present Divisions till further orders. They will be on probation for a period of 2 (two) years from the date of promotion :—

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
1.	Shri Prabir Kumar Mukhopadhyay
2.	Shri Amal Kumar Nandi

The above named Officers may submit their options under F.R. 22(I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Divisional Accounts Officer Gr. I for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant Genl. (A/cs. & VLC)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 30th July 2010

No. 5/1/2010-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001 = 100 increased by 2 points and stood at 174 (one hundred & seventy four) for the month of June, 2010.

S. S. NEGI
Director

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 27th July 2010

No. PD/8(7)/2008-R-IV/6708.—The President is pleased to appoint Shri Hitendra Singh Chouhan as Scientific Officer Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (pre-revised scale of pay Rs. 8,000-275-13,500/-) in Bhabha Atomic Research Centre with effect from the forenoon of October 31, 2008 in a temporary capacity until further orders.

S. GOVERDHAN RAO
Head
Personnel Division

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE)

Kolkata-700064, the 29th July 2010

No. VECC/Prom/2010/2219.—The Director, Variable Energy Cyclotron Centre is pleased to appoint the undermentioned Officer of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, to the grade of Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) + G.P. Rs. 5,400/- in Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata-700064, with effect from the forenoon of June 28, 2010, until further orders :—

Name	Present post	Scale of pay
Shri S. S. Jani	Asstt. Accounts Officer	Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) + G.P. Rs. 4,800/-

K. GOPALAKRISHNAN
Administrative Officer-III

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452013, the 27th July 2010

No. RRCAT/Admn-2009/R-805(J)/759.—The President is pleased to appoint the following Officers on promotion to the grade, Pay Band and date as indicated against their names in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore :—

Sl. No.	Name	Present Grade (Pay Band + Grade Pay)	Promoted Grade (Pay Band + Grade Pay)	w.e.f. (Forenoon)
1	2	3	4	5
1.	Dr. Maheshwar Nayak	Scientific Officer /D (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-)	Scientific Officer/E (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-)	01.07.2009

1	2	3	4	5
2.	Sh. Chander Kant	Scientific Officer /D (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-)	Scientific Officer/E (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-)	01.07.2009
3.	Sh. Mukesh Kumar	-do-	-do-	-do-
4.	Sh. Praveen Mohania	-do-	-do-	-do-
5.	Sh. Riyasat Hussain	-do-	-do-	-do-
6.	Sh. Ramakanta Biswal	-do-	-do-	-do-
7.	Sh. Anurag Bansal	-do-	-do-	-do-
8.	Sh. R. K. Soni	-do-	-do-	-do-
9.	Sh. Rohan Bhandare	Scientific Officer/C (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-)	Scientific Officer/D (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-)	-do-
10.	Sh. Arun Kumar	-do-	-do-	-do-
11.	Sh. Dhruvdeep Narwat	-do-	-do-	-do-
12.	Sh. Shailesh Kumar Khamari	-do-	-do-	-do-
13.	Sh. Brijesh Chandra Pant	-do-	-do-	-do-
14.	Kum. Neha Singh	-do-	-do-	-do-
15.	Sh. K. Sekar	-do-	-do-	-do-
16.	Smt. Parul Arora	-do-	-do-	-do-
17.	Sh. Pradeep Kumar	-do-	-do-	-do-
18.	Sh. Akhil Patel	-do-	-do-	-do-
19.	Sh. Prasanta Kumar Sahani	-do-	-do-	-do-
20.	Sh. Ankur Agrawal	-do-	-do-	-do-
21.	Sh. Manjeet Ahlawat	-do-	-do-	-do-
22.	Sh. Rahul Gaur	-do-	-do-	-do-
23.	Kum. Rinki Updhyay	-do-	-do-	-do-
24.	Kum. Prachi Chitnis	-do-	-do-	-do-
25.	Sh. Mahesh Acharya	-do-	-do-	-do-
26.	Sh. Avanish Ojha	-do-	-do-	-do-
27.	Sh. Deepak Kumar Vats	Scientific Officer/SB (PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-)	Scientific Officer/C (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-)	-do-

R. P. ACHARYA
Chief Administrative Officer

**ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR
EXPLORATION & RESEARCH**

Hyderabad-500629, the 27th July 2010

No. AMD-4/4/2009-Rectt/1299.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad by promotion to the grades mentioned against each (carrying the Pay Band as mentioned there under) in the same Directorate in an officiating capacity from the dates shown against each, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Promotion to Grade/ Pay Band	Date of Assumption of Charge
	S/Shri			
1.	Dr. M.N. Babu	SO/D	SO-E Pay Band-3 Rs. 15,600— 39,100/- + 7,600/- Gr. Pay	01.07.2009
2.	B.C. Sarkar	SO/D	SO-E Pay Band-3 Rs. 15,600— 39,100/- + 7,600/- Gr. Pay	01.07.2009
3.	K. Venkateswara Rao	SO/D	SO-E Pay Band-3 Rs. 15,600— 39,100/- + 7,600/- Gr. Pay	01.07.2009
4.	M. Jayachandran	SO/C	SO-D Pay Band-3 Rs. 15,600— 39,100/- + 6,600/- Gr. Pay	01.07.2009
5.	S. Anjan Prasad	SO/C	SO-D Pay Band-3 Rs. 15,600— 39,100/- + 6,600/- Gr. Pay	01.07.2009
6.	Habeeb Ali Khan	SO/SB	SO-C Pay Band-3 Rs. 15,600— 39,100/- + 5,400/- Gr. Pay	01.07.2009

V. VIJAYA RAMI REDDY
Administrative Officer-III

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL
AVIATION**

New Delhi-110003, the 26th July 2010

No. A-12018/1/2009-E.I.—The President is pleased to extend the adhoc appointment of the following Assistant Directors of Aircraft Engineering Directorate in the office of Director General of Civil Aviation on their promotion to the post of Deputy Director in the Aircraft Engineering Directorate in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- beyond 29.6.2010 for a period of

six months or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier :—

1. Shri Anand Prakash [for 30.6.2010 only as he retired on 30.6.2010 (A/N)]
2. Shri A. K. Tewari
3. Smt. Kamal Mahajan
4. Shri Hilol Biswas

The adhoc appointment will not confer on them any right for regular promotion or for seniority etc. Further, the Government reserves the right to terminate their adhoc appointment without assigning any reason or giving any notice etc. to the Officers concerned.

VIJAY SINGH
Dy. Dir. of Administration

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES**

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies

Chandigarh, the 2nd August 2010

No. RoC/560(5)/EES-2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off the Register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	09851	M/s. MMG Deposits and Advances Private Limited
2.	15476	M/s. Vinay Sales Private Limited
3.	31769	M/s. Konsol Education and Immigration Consultants Private Limited
4.	27728	M/s. Robin Insurance Consultants Private Limited
5.	05551	M/s. Pb. Consultants Private Limited
6.	08151	M/s. Singla Machinery Stores Private Limited
7.	30947	M/s. M. S. Carrier Immigration Services Private Limited
8.	17963	M/s. Sri Ganga Nagar Finance Private Limited
9.	12067	M/s. Hargur Finance Private Limited
10.	18708	M/s. Fas Steels Private Limited
11.	12235	M/s. Jyoti Deposits and Advances Limited
12.	25324	M/s. Welteck Impex Private Limited

1	2	3
13.	30908	M/s. Leftbrain Educational Testing Services Private Limited
14.	11326	M/s. Renuka Woollens Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies

Chandigarh, the 2nd August 2010

No. TS/560/3/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies shall be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	25812	M/s. Nav Management Services Private Limited
2.	18065	M/s. Kalinga Impex Limited
3.	08522	M/s. Goindwal Gears Private Limited
4.	11878	M/s. Scandose Pharmaceuticals Private Limited
5.	12485	M/s. JS Stock and Share Services Private Limited
6.	13716	M/s. Jai Ganesh Textile and Woollen Mills Private Limited
7.	04720	M/s. Amigo Chemical Industries Private Limited
8.	11134	M/s. Atam Agro Mills Private Limited
9.	14960	M/s. Jot Leasing and Finance Private Limited
10.	27275	M/s. Greater Mohali Development Private Limited
11.	29982	M/s. H. P. Singh and Other Colonisers and Builders Limited
12.	05148	M/s. Chanchal Finance Private Limited
13.	30129	M/s. Intime Impex Private Limited
14.	05380	M/s. Mohan Poultry Organisers Private Limited
15.	24037	M/s. Webpowerdot Private Limited

1	2	3
16.	24669	M/s. Bagri Builders Private Limited
17.	07736	M/s. New Trend Employment Promoters Limited
18.	30929	M/s. G 2 Energy Savers and Engineers Private Limited
19.	26415	M/s. Akhileshwar Distributors Private Limited
20.	24048	M/s. Tridev Poly Fabrics Limited
21.	07194	M/s. Prasad Medicine Manufacturing Company Private Limited
22.	13202	M/s. Olympic Marketing Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies

Shillong-793001, the 27th July 2010

No. RoC/SH/560(5)/2010/2841—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off the Register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	5195	M/s. Arunachal Fabrication and Construction Private Limited
2.	7384	M/s. Springvalley Foods Private Limited
3.	5604	M/s. Damayanti Exporters Private Limited
4.	7550	M/s. Avant-Garde Builders & Carriers Private Limited
5.	5670	M/s. S. N. Tyres Private Limited
6.	3547	M/s. Polas Food and Beverages Private Limited

G. C. YADAV
Registrar of Companies
N. E. Region & Shillong

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Goldeneye Financial Services & Marketing Private
Limited

Ernakulam-682021, the 29th July 2010

No. 11877—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the

name of M/s. Goldeneye Financial Services & Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Padinjarekara Commercial Co. Private Limited

Ernakulam-682021, the 29th July 2010

No. 11881—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Padinjarekara Commercial Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Veb Energy Private Limited

Ernakulam-682021, the 29th July 2010

No. 11884—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Veb Energy Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. BPL Power Projects Kerala Private Limited

Ernakulam-682021, the 29th July 2010

No. 11887—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. BPL Power Projects Kerala Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Kosay Transport and Trades Private Limited

Ernakulam-682021, the 29th July 2010

No. 11890—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kosay Transport and Trades Private Limited

has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Novel Timber Traders Private Limited

Ernakulam-682021, the 29th July 2010

No. 11893—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Novel Timber Traders Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. C-Zone Builders and Developers Private Limited

Ernakulam-682021, the 29th July 2010

No. 11896—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. C-Zone Builders and Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies

Kochi-682021, the 22nd July 2010

No. u/s. 560(3)/SM/22/RoC-Ekm/11950/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies shall be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	06805	M/s. Cochin Chetak Road Lines Private Limited
2.	07139	M/s. Cochin Builders and Estates Private Limited

1	2	3	1	2	3
3.	07202	M/s. Kanjickal Credits and Investments Private Limited	30.	08920	M/s. Marakamparambil Credits and Investments Private Limited
4.	07211	M/s. Dhananjaya Hire Purchasing and Leasing Finance Co. Private Limited	31.	08972	M/s. Soul India Farms Private Limited
5.	07251	M/s. Dawn Estates and Edifices Private Limited	32.	08982	M/s. H. Y. S. Foundations Private Limited
6.	07366	M/s. Anamudi Mountain Top Resorts Private Limited	33.	09008	M/s. Viyyur Kuries Private Limited
7.	07598	M/s. Sofiya Steel Re-Rolling Mills Private Limited	34.	09036	M/s. Front Line Marketing Private Limited
8.	07814	M/s. Sense 6 Films Private Limited	35.	09041	M/s. Gemini Contractors and Transports Private Limited
9.	07984	M/s. A and S Communications and Systems Private Limited	36.	09047	M/s. Instant Agro Products Private Limited
10.	07993	M/s. Harmet Tours and Travels Private Limited	37.	09098	M/s. Scans Securities Private Limited
11.	08060	M/s. Adhunik Credit and Securities Private Limited	38.	09196	M/s. Glore Plantations Private Limited
12.	08063	M/s. Athani Kuries and Loans Private Limited	39.	09236	M/s. Stallion Plantations Private Limited
13.	08065	M/s. Sreenivas Condiments Private Limited	40.	09268	M/s. Lejiv Commodities Private Limited
14.	08128	M/s. Techno Marine Equipments Private Limited	41.	09276	M/s. Sunimony Plantation Private Limited
15.	08228	M/s. Devi Krishna Real Estates Private Limited	42.	09309	M/s. Thottungal Chits and Investments Private Limited
16.	08268	M/s. Oasis Aqua Projects Private Limited	43.	09314	M/s. Grip India Properties Private Limited
17.	08273	M/s. Capital Builders Private Limited	44.	09324	M/s. Kerala Card Private Limited
18.	08316	M/s. Manna and Company Private Limited	45.	09329	M/s. JNV Stocks and Shares Private Limited
19.	08395	M/s. Land Master Developers and Builders Private Limited	46.	09339	M/s. Swarashtra Finance Private Limited
20.	08463	M/s. Horizon Fabrics Private Limited	47.	09407	M/s. Tamil Nadu Synthetics Private Limited
21.	08505	M/s. Hamali Plantations Private Limited	48.	09483	M/s. Al Faleh Cargo Links Private Limited
22.	08576	M/s. Bursar Finance and Investments Private Limited	49.	09537	M/s. Sanathana Herbals and Foods Private Limited
23.	08583	M/s. Akshaya Projects (India) Private Limited	50.	09686	M/s. Flints Retreat Private Limited
24.	08645	M/s. Rubicon Resorts Private Limited	51.	09688	M/s. Walayar Chits and Finance Private Limited
25.	08700	M/s. Hi Fi Appliances Private Limited	52.	09755	M/s. Kerala Trade Links Private Limited
26.	08708	M/s. Images Diagnostic Centre Private Limited	53.	09768	M/s. Veejeyem Plantations and Real Estates Private Limited
27.	08775	M/s. Transcom Plastics Private Limited	54.	09798	M/s. Kottappuram Leasing and Financing Private Limited
28.	08877	M/s. Praxis Securities Private Limited	55.	09799	M/s. Vishnu Financial Services Private Limited
29.	08898	M/s. Rise Capital Services Private Limited	56.	09831	M/s. Greycold Constructions Private Limited
			57.	09840	M/s. Cochin Development Syndicate Private Limited
			58.	09895	M/s. Nagamma Plantations Private Limited
			59.	09969	M/s. Sieco Private Limited

1	2	3	1	2	3
60.	10067	M/s. Edayar Holdings and Investments Private Limited	85.	11514	M/s. Loyal Freight Shipping Agencies Private Limited
61.	10117	M/s. M. K. P. Latex Private Limited	86.	11646	M/s. Trendz Projects Private Limited
62.	10133	M/s. Suryakiran Trades and Leasing Private Limited	87.	11838	M/s. Rich Blend Tea Private Limited
63.	10169	M/s. Tidal Marketing and Sales Private Limited	88.	12495	M/s. Sathya Marine Exports Private Limited
64.	10216	M/s. Parvathy Kannan Credit and Investments Private Limited	89.	12564	M/s. Life Cards and Services Private Limited
65.	10236	M/s. G. S. Group of Companies Private Limited	90.	12567	M/s. Hotel Harbourview Private Limited
66.	10301	M/s. Varadanam Chits and Finance Private Limited	91.	12665	M/s. Konkan Organic Farms and Plantations Private Limited
67.	10338	M/s. Anagha Plantations Private Limited	92.	12744	M/s. Akshaya Service Private Limited
68.	10352	M/s. Poojitha Chitties and Hire Purchase Private Limited	93.	12752	M/s. Proxima Polymers Private Limited
69.	10353	M/s. Beetali Private Limited	94.	12791	M/s. APS Edibles Private Limited
70.	10354	M/s. Dheeraj Kuries and Loans Private Limited	95.	12847	M/s. Pampady Foods Private Limited
71.	10488	M/s. Mallaya Investments and Kuries Private Limited	96.	12859	M/s. Valfor Info Systems Private Limited
72.	10561	M/s. Dhana Swaroopa and Social Welfare Centre Private Limited	97.	12992	M/s. Goodluck Services Private Limited
73.	10641	M/s. Thesis Leasing and Hirepurchasing Private Limited	98.	13068	M/s. Golden Sparrow Films Private Limited
74.	10732	M/s. Empeeyel Investments Private Limited	99.	13256	M/s. Best Millennium Trade Links Private Limited
75.	10890	M/s. Manola Chits and Finances Private Limited	100.	13548	M/s. Vighneswar Foods Private Limited
76.	11035	M/s. Souhrudham Kuries and Loans Private Limited	101.	13729	M/s. Dale and Hill Exports Private Limited
77.	11041	M/s. Tatra Links Private Limited	102.	13747	M/s. Interfinish Interior Solutions Private Limited
78.	11059	M/s. I. G. P. Financiers Private Limited	103.	13985	M/s. Connect Kerala.Com Private Limited
79.	11075	M/s. Transmed Distributors Private Limited	104.	14144	M/s. Ideal Farms Private Limited
80.	11189	M/s. Sree Bhagavathy Enterprises Private Limited	105.	14228	M/s. Highness Properties Private Limited
81.	11231	M/s. Magna Trading Company Private Limited	106.	14253	M/s. Pranavam Holidays Private Limited
82.	11248	M/s. Dasco Holdings Private Limited	107.	14282	M/s. Malabar Tools Private Limited
83.	11264	M/s. Amarapuri Chits and Finance Private Limited	108.	14310	M/s. Innovate Fortune Remedies Private Limited
84.	11356	M/s. Viswas Kuries and Loans Private Limited	109.	14342	M/s. Travancore Impex Private Limited
			110.	14370	M/s. Indecor Architects and Builders Private Limited

V. E. JOSEKUTTY
Asstt. Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies
Cuttack-753001, the 26th July 2010

No. RoC/Sec. 560(3)/2832—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies shall be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-007645	M/s. Jay Jagannath Estates and Promoters Private Limited
2.	15-007651	M/s. U and U Solutions Private Limited
3.	15-007654	M/s. The New Residency Estates and Promoters Private Limited
4.	15-007658	M/s. Shreekhetra Creations Private Limited
5.	15-007659	M/s. Teacher Placement and Consulting Services Private Limited
6.	15-007662	M/s. Sri Gopinath Dev Builders and Developers Private Limited
7.	15-007661	M/s. Multi Tier Biotech Private Limited
8.	15-007663	M/s. Syngnesis Technologies Private Limited
9.	15-007669	M/s. Dristi Infotech Private Limited
10.	15-007670	M/s. Skylimit Pharmaceuticals Private Limited
11.	15-007671	M/s. Lifecare Biotech (India) Private Limited
12.	15-007672	M/s. Saro Trading Private Limited
13.	15-007673	M/s. Maxgain Infoway Private Limited
14.	15-007686	M/s. Kailashpati Construction Private Limited
15.	15-007687	M/s. Aneoseed Trading Development Private Limited
16.	15-007697	M/s. Nutan Eastcon Private Limited
17.	15-007699	M/s. Perfex Woodcon Private Limited
18.	15-006981	M/s. Jaraka Estates Private Limited
19.	15-000489	M/s. The Bhubaneswar Byabasayi Limited
20.	15-005080	M/s. Shashwat Mercantile Private Limited
21.	15-006046	M/s. Prosilient Exports Private Limited
22.	15-005897	M/s. Nilesh Agencies Private Limited
23.	15-006985	M/s. SDA Data Systems Private Limited
24.	15-006986	M/s. Sudhaa Combines Private Limited
25.	15-006986	M/s. Baspani Minerals Private Limited
26.	15-006989	M/s. Srilaxmi Builders and Promoters Private Limited

1	2	3
27.	15-007030	M/s. King Fisher Marine Export Private Limited
28.	15-001821	M/s. Godavari Poly-Products Private Limited
29.	15-002728	M/s. Crafts Digital Systems Private Limited
30.	15-002804	M/s. United Shipping Agency India Private Limited
31.	15-002990	M/s. R. B. Biscuits Private Limited
32.	15-004593	M/s. Ori-Pride Security Service Private Limited
33.	15-005144	M/s. Alpha Engineer and Consultants Private Limited
34.	15-005744	M/s. R. D. Dairies Private Limited
35.	15-006993	M/s. Intercity Communication Private Limited
36.	15-007701	M/s. Autonation Wide Services Private Limited
37.	15-007704	M/s. Radharamana Trading Private Limited
38.	15-007709	M/s. Swami Nigamananda Thakur Security Agency Private Limited
39.	15-007711	M/s. Kulthia Herbs Private Limited
40.	15-007717	M/s. Maa Barunai Realcon Private Limited
41.	15-007719	M/s. Laxmi Metalics Private Limited
42.	15-007721	M/s. Srujani Media Private Limited
43.	15-007722	M/s. Shobhagya Iron and Steel Private Limited
44.	15-007726	M/s. Gajanan Residency Projects Private Limited
45.	15-007730	M/s. Swastik Regional Marketing Private Limited
46.	15-007737	M/s. Baibhav Marketing Private Limited
47.	15-007741	M/s. Kochilai Realcon Private Limited
48.	15-007743	M/s. Bijaya Sea Foods Private Limited
49.	15-007745	M/s. Salandi Estates and Promoters Private Limited
50.	15-007746	M/s. Visible Success Marketing Private Limited
51.	15-007747	M/s. Prajabandhu Sheetal Bhandar Private Limited
52.	15-007750	M/s. Baisnavi Builders and Developers Private Limited
53.	15-007754	M/s. Symbiotic Logistics and Consultancy Private Limited
54.	15-003756	M/s. Fortune Finance and Investment Private Limited

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies
Cuttack-753001, the 28th July 2010

No. RoC/Sec. 560(3)/2860—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	15-001228	M/s. Orissa Composite Boards Limited
2.	15-002914	M/s. Panda Motors Private Limited

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. VM Technologies Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 29559/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. VM Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Apple Cargo Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 73766/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Apple Cargo Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jade Educational Consultants Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 67230/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jade Educational Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Modern Kitchen Aids Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 9517/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Modern Kitchen Aids Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Devar Petro Products Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 30578/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Devar Petro Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Design Quartet Consultants Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 55014/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Design Quartet Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lekha Teletowers Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 71490/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lekha Teletowers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. AR Travel Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 61347/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. AR Travel Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Madras Auto Couplings Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 31617/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Madras Auto Couplings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Transera Electronics Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 31206/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Transera Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Valiant Sansbound Solutions Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 54584/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Valiant Sansbound Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arcot Kamalam Chits Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 27649/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arcot Kamalam Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Porur Properties Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 64746/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Porur Properties Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Champsoft Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 23272/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Champsoft Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rattha Wellness Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 62899/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rattha Wellness Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Muthu Palaye Steel Mills Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 51980/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Muthu Palaye Steel Mills Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. First Class Properties and Investment Private Limited
Chennai-600034, the 26th July 2010

No. 59425/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. First Class Properties and Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Empower Infoservices Private Limited
Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 45334/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Empower Infoservices Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Stone Terrain India Private Limited
Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 48557/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Stone Terrain India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Comtec Software Solution Private Limited
Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 47183/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Comtec Software Solution Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Clickone E-Services Private Limited
Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 69784/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Clickone E-Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Crescent Star Advertising Private Limited
Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 67114/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Crescent Star Advertising Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. AVM Media Marketing Private Limited
Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 46828/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. AVM Media Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gateway Engineering Private Limited
Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 22672/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gateway Engineering Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dakshin Water Company Private Limited
Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 52110/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dakshin Water Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Covanta India Operating Private Limited
Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 45894/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Covanta India Operating Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. M. Fashions Private Limited

Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 50878/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. M. Fashions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. TJT Agency Assist Private Limited

Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 59826/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. TJT Agency Assist Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Edu Consult Private Limited

Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 68957/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Edu Consult Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adornis Furniture Private Limited

Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 59158/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Adornis Furniture Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Farida Management Services Private Limited

Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 55310/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Farida Management Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hema Benefit Fund Limited

Chennai-600034, the 27th July 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/Sec 560/2010/00025—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hema Benefit Fund Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

C. RUPACHANDAR
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands